

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]	नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 13—अप्रैल 19, 2019 (चैत्र 23, 1941)=
No. 15]	NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 13—APRIL 19, 2019 (CHAITRA 23, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

भाग III—खण्ड 4=

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
(बैंकिंग विनियमन विभाग)

मुंबई—400001, दिनांक 28 मार्च 2019

सं. बैविवि.एनबीडी.(एसएफबी—फिनकेयर).सं.8140/16.13.216/2018-2019—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को शामिल करने का निदेश देता है:—

फिनकेयर स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड
301-306, तीसरी मंजिल, अभिजित-V, मेयर बंगलो के सामने,
लॉ गार्डन रोड, मीठाखाली, अहमदाबाद-380006
गुजरात

लिलि वडेशा
कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF BANKING REGULATION)

Mumbai-400001, the 28th March 2019

No. DBR.NBD.(SFB-Fincare).No. 8140/16.13.216/2018-2019—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Fincare Small Finance Bank Limited
301-306, 3rd Floor, Abhijeet-V, Opp. Mayor's Bungalow,
Law Garden Road, Mithakhali, Ahmedabad-380006
Gujarat

LILY VADERA
Executive Director